

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY DELHI

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली

Industrial Research & Development Unit

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास इकाई

हौज खास, नई दिल्ली -110016

Tel.:011-26597534

No. IITD/IRD/RP03428G/164869**Date:01/05/2018****Advertisement No.: IITD/IRD/104/2018**

Applications from Indian nationals are invited for Project Appointment under the following project. Appointment shall be on contractual basis with consolidated pay, renewable yearly or upto the duration of the project, whichever is earlier. निम्नलिखित परियोजना के तहत भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। अपॉइंटमेंट, अनुबंधित आधार पर समेकित वेतन, नवीकरणीय वार्षिक या परियोजना की अवधि तक, जो भी पहले हो, के साथ होगा।

Title of the Project	Human Body FE Model Development for Blast and Impact (JATC Sub Project # 3 under (MI01618) (RP03428G)	
Funding Agency	DRDO, Ministry of Defence	
Name of the Project Investigator	Prof. Anoop Chawla	
Deptt./Centre	Department of Mechanical Engineering	
Duration of the Project	Upto:10/09/2022	
Post (s)	Consolidated Pay-slab	Qualifications
Sr. Project Scientist (1)	Rs.40,000-44,000-48,000-52,000-56,000-60,000-64,000/- p.m. plus HRA @ 20%	Ph.D. 1 st class or equivalent / 1 st class Masters (M.Tech.) or equivalent with 5 years experience / 1 st class Bachelors (B.Tech.) with 10 years experience in FE meshing for dynamic non linear applications.
Project Associate (4)	Rs.27,500-30,250-33,000-35,750-38,500-41,250-44,000/- p.m. plus HRA @ 20%	1 st class B.Tech. in Mechanical Engineering or equivalent with past experience of Explicit FE in dynamic applications.
Project Assistant (Tech.) (1)	Rs.23,500-25,850-28,000-30,550-32,900-35,250-37,600/- per month plus HRA @ 20%	Graduate degree with minimum 15 years of experience in handling laboratories in a research Institute.

The post(s) may be downgraded as per discretion of the Selection Committee if none of the candidate is found suitable for the post. The candidates who are interested to apply for the above post should download **Form No. IRD/REC-4** from the IRD Website (<http://ird.iitd.ac.in/rec>) of IIT Delhi and submit the duly filled form with complete information regarding educational qualifications indicating percentage of marks/division, details of work experience etc. **by e-mail with advertisement No. on the subject line to achawla.projects@gmail.com**

IIT Delhi reserves the right to fix higher criteria for short-listing of eligible candidates from those satisfying advertised qualification and requirement of the project post and their name will be displayed on web link (<http://ird.iitd.ac.in/shortlisted>) alongwith the interview details. Only short-listed candidates will be informed. In case any clarification is required on eligibility regarding the above post, the candidate may contact Prof. Anoop Chawla at his e-mail id: **achawla.projects@gmail.com**

5% relaxation of marks may be granted to the SC/ST Candidates. In case of selection of a retired/superannuated government employee, his/her salary will be fixed as per prevailing IRD norms. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों की 5% छूट दी जा सकती है। एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी के चयन के मामले में उसका वेतन वर्तमान आईआरडी मानदंडों के अनुसार तय किया जाएगा। यदि उपरोक्त पद के लिए पात्रता पर कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो उम्मीदवार प्रो. अनूप चावला के ईमेल आईडी: **achawla.projects@gmail.com** पर संपर्क कर सकते हैं।

The last date for submitting the completed applications by e-mail is 15/05/2018 by 5.00 p.m. The shortlisted candidates who are called for interview should bring original certificates (both professional and academic) with a recent passport size photograph at the time of interview.

(वीरेंद्र कुमार वशिष्ठ)

सहायक कुल्सचिव, आईआरडी

वितरण

- Dept./Centres/Units के प्रमुख: यह अनुरोध किया जाता है कि उपरोक्त विज्ञापन की सामग्री आपके विभाग / केंद्र / यूनिट में कार्यरत कर्मचारियों के ध्यान में लाया जाएगा
- वेबमास्टर, आईआरडी (Web Master, IRD): आईआईटीडी वेबसाइट पर विज्ञापन डालने के लिए
- नोटिस बोर्ड (Notice Board)
- विज्ञापन फ़ाइल (Advertisement File)
- प्रो. अनूप चावला, परियोजना अन्वेषक, यांत्रिक इंजीनियरिंग विभाग